

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 फरवरी 2024 — माघ 30, शक 1945

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्र. एफ 4-06/सात-1/2022.— छत्तीसगढ़ कार्यपालन शासन के कामकाज संबंधी नियमों के भाग-5 के नियम 13 के अधीन जारी किये गये अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 2-क की मद (1) के अनुसरण में तथा इस संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, मैं टंक राम वर्मा, मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एतद्वारा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-3 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 23 के अधीन विचाराधीन निगरानी प्रकरणों एवं अभ्यावेदनों में पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसी समस्त कार्यवाही, जो प्रकरण के अंतिम विनिश्चय तक पहुँचाने के लिये आवश्यक हो, करने के लिये अधिकृत करता हूँ। वे तत्पश्चात् प्रकरण में अंतिम आदेश अनुमोदन हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

हस्ता./-

(टंक राम वर्मा)

मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग